



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1934 (श0)
(सं0 पटना 272) पटना, वृहस्पतिवार, 21 जून 2012

सं0 6/खा0म0नीति-02/2008—265 (6)/रा0

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

1 मार्च 2012

विषय :—खास महाल भूमि के प्रबंधन के निमित्त बिहार खास महाल नीति, 2011 में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में।

खास महाल भूमि के समुचित प्रबंधन एवं इसकी क्षमता एवं उपयोग के अनुरूप राजस्व की प्राप्ति सहित राज्य के सामाजिक आर्थिक हित में इसके समग्र उपयोग के विषय पर बिहार खास महाल नीति, 2011 गठित की गयी। बिहार खास महाल नीति, 2011 में कतिपय आवश्यक संशोधनों का निर्धारण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्न प्रकारेण एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति बिहार खास महाल नीति, 2011 में कतिपय आवश्यक संशोधनों का निर्धारण हेतु संशोधनों के प्रारूप की कंडिकावार समीक्षा करते हुए इसको अंतिम रूप देने पर यथा शीघ्र विचार करेगी।

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | मुख्य सचिव, बिहार | — | अध्यक्ष |
| 2. | विकास आयुक्त, बिहार | — | सदस्य |
| 3. | महाधिवक्ता, बिहार अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 4. | प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग | — | सदस्य |
| 5. | प्रधान सचिव, वित्त विभाग | — | सदस्य |
| 6. | सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | — | सदस्य |

7.	सचिव, विधि विभाग	—	सदस्य
8.	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	—	सदस्य सचिव।

यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश :—इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 272-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>